

Monitoring of- Export . Commitments

3S55. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government monitor the exports by companies which make export commitments to obtain licences;

(b) if so, how many have sought for extension of time and how many have stated other reasons for not adhering to their commitments;

(c) how many requests from other (administrative Ministries have been entertained for giving waivers to companies with export commitments; and

(d) what is the estimated loss of foreign exchange on account of non-fulfilment of export commitments by the companies so far during the current financial year ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The period for which the information is required has not been indicated. As such it is not possible to furnish the information.

(d) The progress of fulfilment of export obligation for the current financial year would be reviewed in the next financial year and hence it is not possible to furnish the information at this stage.

#### बैंकों के निदेशक मंडल

3856. डा० अबरार अहमद खान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों की संख्या कितनी है, प्रत्येक मंडल में क्रमशः मुस्लिम और सिख समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की

संख्या कितनी है तथा उनको कृपया संख्या कितनी है ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में इन वर्गों के लोगों को लेने के लिए कोई विशेष प्रावधान है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और

(ग) क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदायों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों के उत्थान के लिए उन्हें इन बैंकों के मंडलों में शामिल करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवडो फेनेरियो)

(क) सभी 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपना अपना निदेशक बोर्ड है। फिनाल, इन में से प्रत्येक निदेशक बोर्ड में गैर सरकारी निदेशकों के सभी नौ पद खाली हैं।

(ख) और (ग) बैंकों के निदेशक बोर्डों का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध स्कीम, 1970 और 1980 में निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रख कर किया जाता है। अबवस्था, सरकार का प्रयास रहता है कि बैंकों के बोर्डों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और इनमें अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का भी शामिल किया जाए।

Reservation of Promotion quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in R.B.I.

3857. SHRI T. R. BALU : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Reserve Bank has decided not to